



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 2005/माघ 15, 1926

No. 18]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2005/MAGHA 15, 1926

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2005

सं. एफ. 37-3/विधि/2005.— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (प), के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभातशिप एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है जिनके नाम हैं :-

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल का संघटन और कार्य) विनियम, 2005 है ।
- (2) ये विनियम भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(2) परिभाषाएं :-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 (1987 का 52);
- (ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है अभातशिप अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित की गई परिषद्
- (ग) "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है अभातशिप अधिनियम की धारा 12 के अधीन परिषद् द्वारा संघटित की गई कार्यकारिणी समिति
- (घ) इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही तात्पर्य होगा जो उन्हें क्रमशः उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

3. राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल का संघटन :-

राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल में निम्नलिखित संघटन शामिल हैं :-

क्र.सं.	संरचना	सदस्य का नाम/पदनाम
1	अध्यक्ष, अभातशिप अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएंगे।	अध्यक्ष
2-8	संबद्ध उद्योग, शोध एवं विकास संगठनों तथा प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से सात प्रतिनिधि	सदस्य
9	इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के अध्यक्ष (पदेन)	सदस्य
10	भारतीय भेषजी परिषद् के अध्यक्ष (पदेन)	सदस्य
11	वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष (पदेन)	सदस्य
12	राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद् के अध्यक्ष (पदेन)	सदस्य
13	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पूजीती (पदेन)	सदस्य
14	अखिल भारतीय प्रबन्ध संस्था के अध्यक्ष (पदेन)	सदस्य
15	आई.आई.टी. परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित आईआईटी परिषद् के प्रतिनिधि (परिषद् सदस्यों में से)	सदस्य
16	मा.सं.वि.मं. भारत सरकार के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव (टी) के रैंक से नीचे नहीं (पदेन)	सदस्य
17	सदस्य सचिव, अभातशिप (पदेन)	सदस्य

सलाहकार, अभातशिप (क्यूए) ब्यूरो राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल की बैठकों का संयोजन करेंगे :-

4. कार्यालय की अवधि :-

अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों, पदेन सदस्यों को छोड़कर के कार्यालय की अवधि उनके संघटन की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगी।

5. राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल के कार्य :- राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल के कार्य हैं :-

- I. भारत में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता प्रबन्धन से जुड़े मुद्दों पर संस्तुति करना।
- II. तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों/संस्थाओं को प्रत्यायित करने के उद्देश्य के लिए मार्गदर्शक, सन्निधिम एवं मानक, विनिर्धारित करना।
- III. कार्यकारिणी समिति/परिषद् को इस उद्देश्य के लिए विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किसी संस्थान अथवा किसी कार्यक्रम की मान्यता समाप्त करने के लिए सलाह देना।
- IV. कार्यकारिणी समिति/परिषद् को प्रत्यायन प्रक्रिया से संबंधित नीतियों और पैरामीटर पर सहायता और सलाह प्रदान करना।
- V. कार्यकारिणी समिति/परिषद् को तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधारों पर स्क्रीमों के निरूपण के लिए सलाह देना।
- VI. कार्यकारिणी समिति/परिषद् द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को पूरा करना।

राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल कार्यकारिणी समिति/परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित पद्धति के अनुसार उक्त कार्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संस्तुति तैयार करेगा।

अनुराधा गुप्ता, सदस्य सचिव

[विज्ञापन/III/IV/162/2004-असाधा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2005

No. F. 37-3/Legal/2005.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 read with section 10 (u) of All India Council for Technical Education Act, 1987 (Act 52 of 1987), All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, namely-

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Constitution and Functions of National Board of Accreditation) Regulations, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987)
- (b) "Council" means the Council established under Section 3 of the AICTE Act;
- (c) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted by the Council under Section 12 of the AICTE Act;
- (d) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act,

3. Constitution of National Board of Accreditation -

The National Board of Accreditation shall have the following constitution

S.No.	Constituency	Name/ Designation of Members
1	Chairman to be nominated by the Chairman, AICTE	Chairman
2-8	Seven Representatives from among Industry, R&D Organisations Eminent Educationists.	Members
9	President of Institution of Engineers (India) (Ex-officio).	Member
10	President of Pharmacy Council of India. (Ex-officio).	Member
11	President of Council of Architecture (Ex-officio).	Member
12	President of National Council for Hotel Management and Catering Technology (Ex-officio).	Member
13	Chairman/ Vice-Chairman UGC (Ex-officio).	Member

14	President All India Management Association. (Ex-officio)	Member
15	Representative of IIT Council nominated by Chairman, IIT Council (From amongst Council members).	Member
16	Representative of MHRD not below the rank of Joint Secretary (T), Govt. of India. (Ex-officio)	Member
17	Member Secretary, AICTE (Ex-officio)	Member

Adviser (QA Bureau) AICTE will convene the meetings of National Board of Accreditation.

4. Term of office:-

The term of office of the Chairman and other Members, except the ex-officio members shall be three years from the date of constitution of the Committee.

5. Functions of National Board of Accreditation:- The functions of the National Board of Accreditation shall be-

- I. to make recommendations with regard to issues of quality assurance and quality management in technical education in India.
- II. to prescribe guidelines, norms and standards for the purpose of accreditation of technical education programmes / institutions.
- III. to advise the Executive Committee/Council regarding de-recognition of an institution or a programme based on the evaluation conducted as per the prescribed procedure for the purpose.
- IV. to advise and assist the Executive Committee/ Council on policies and parameters pertaining to the accreditation process.
- V. to advise the Executive Committee/Council on formulation of schemes for Promotion of Qualitative Improvements in technical Education.
- VI. to carry out any other function assigned by the Executive Committee/Council;

The National Board of Accreditation shall make suitable recommendations in the discharge of the above functions to the Executive Committee/Council in accordance with the procedure prescribed from time to time.

ANURADHA GUPTA, Member-Secretary

[Advt./III/IV/162/2004-Exty.]